

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 634 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2014—पौष 8, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1801.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद् टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़.	अध्यक्ष	-	-	लक्ष्मी राकेश गिरी	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	अहीर राजकुमार यादव	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	इन्द्रा तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	अन्जु चक्रेश जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	अंशुल नापित	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	अहिरवार शोभाराम	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	संतोश चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	चांदवी हवीब राईन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	संध्या सोनी	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	शशि प्रभा जैन होंडों	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	नगरपालिका परिषद्	पार्षद	10	दस	कल्लू रमजान	भारतीय जनता पार्टी
12	टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़.	पार्षद	11	ग्यारह	नीतु बाल्मीकि	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	अरविन्द श्रीवास्तव	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	अहिरवार पार्वती कैलाश	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	भरत सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	चांदनी बानो	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17		पार्षद	16	सोलह	सलीम खॉन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18		पार्षद	17	सत्रह	लक्ष्मी रामकुमार रैकवार	निर्दलीय
19		पार्षद	18	अठारह	सुषमा संजय नायक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
20		पार्षद	19	उन्नीस	हर्ष मिश्रा	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	बृजेन्द्र कुमार राय	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	उमा यादव	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस	शमीम बानो	इंडियन नेशनल कांग्रेस
24		पार्षद	23	तेईस	अब्दुल जाहिद खॉन	भारतीय जनता पार्टी
25		पार्षद	24	चौबीस	सीमा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
26		पार्षद	25	पच्चीस	राकेश कुमार शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
27		पार्षद	26	छब्बीस	गोकुल कुम्हार	भारतीय जनता पार्टी
28		पार्षद	27	सत्ताईस	ध्रुव यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1802.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् पलेरा, जिला टीकमगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् पलेरा, जिला टीकमगढ़.	अध्यक्ष	-	-	विन्देश्वरी हरीशंकर खटीक	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	श्रीमति किरन नापित	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	रेखा देवी हिन्द कुमार विश्वकर्मा	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	गुलाब आदिवासी	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	ललता राय	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	नगर परिषद् पलेरा,	पार्षद	5	पांच	अहीर कैलाश कुमार	भारतीय जनता पार्टी
7	जिला टीकमगढ़.	पार्षद	6	छः	इन्दु प्रकाश पटैरिया	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	रमेश नापित	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	अहिरवार जयराम	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	कचरे नीलम	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	बतूलन अहमद खां	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	शीला जयराम रजक	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमती कलावती बंशकार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	बंशकार रेखा रामस्वरूप	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	अहिरवार ठाकुर दास	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	अहिरवार कैलाश	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( गिरीश शर्मा )  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1803.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् लिधोराखास, जिला टीकमगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् लिधोराखास, जिला टीकमगढ़.	अध्यक्ष	-	-	सचेन्द्र कुमार खटीक	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	किरण/ब्रजलाल कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	अहिरवार रतीबाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	कुशवाहा परमिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	नेहरू खटीक	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	पुष्पा कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	बैना मुबारक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	रघुवीर सहाय पस्तोर (कक्कू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	रश्मि ठाकुर	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	दुर्जन सिंह	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	अहिरवार रामचरन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	प्रभा बालकृष्ण मिश्रा	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	नगर परिषद् लिधोराखास, पार्षद		12	बारह	अमित नायक (झल्लू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14	जिला टीकमगढ़.	पार्षद	13	तेरह	वीरेंद्र नापित उर्फ बबली नापित	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	मीरा देवी	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सतीश कुमार साहू	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1804.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् बडागांव, जिला टीकमगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् बडागांव, जिला टीकमगढ़.	अध्यक्ष	-	-	रामचरन कुम्हार	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	नारायण दास लोधी	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	परसादी रैकवार	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमति नीतू जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	बृजलाल रैकवार	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	कन्नु सौर	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	गीता ऋषिराम	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	कडोरीलाल/जुगरा वसोर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	कुशवाहा श्रीमति लच्छीवाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	अंचू/छन्दी अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	हिमतू अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	प्रसन्न कुमार जैन	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	रेशमा अजीज खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	बेबी राजा चन्दन सिंह	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	आशाराम चौरयाल	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सुखवती विश्वकर्मा	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1805.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् निवाडी, जिला टीकमगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक (1)	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)		
1	नगर परिषद् निवाडी, जिला टीकमगढ़.	अध्यक्ष	-	-	अहिरवार गीता निराला	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	घासी राम प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	विनोद प्रजापति	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	मीना भास्कर राय	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	अहिरवार कशीराम	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	कुन्ती लल्लन राय	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	मिथला रहीस	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	नरेन्द्र सिंह दांगी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	सत्येन्द्र उर्फ सत्यदेव तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	गफूरन हबीब	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	अहिरवार ऊषा	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	गीता देवी प्रहलाद पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	महेन्द्र सिंह दांगी	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	विनीता अरविन्द दांगी	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	बाजपेई प्रेमलता देवन्ती	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	दिनेश रायकवार	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1806.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् कारी, जिला टीकमगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक (1)	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)		
1	नगर परिषद् कारी, जिला टीकमगढ़.	अध्यक्ष	-	-	कुशवाहा लच्छी	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	नगर परिषद् कारी,	पार्षद	1	एक	सीताराम रैकवार उर्फ बब्लू	भारतीय जनता पार्टी
3	जिला टीकमगढ़.	पार्षद	2	दो	राम किशोर जोशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	चतुर बाई	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	अंजना साहू	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	सुशंती घोषी	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	कुशवाहा हरचरन	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	मुन्नालाल बंशकार	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	ध्यानचंद सौर	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	रश्मि तिवारी	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	अनीता पंडित	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	बेटीबाई गोली प्रसाद रैकवार	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	मिन्टू रैकवार	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	मलखान कुशवाहा	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	सुरेन्द्र खंगार	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	देवकुंवर	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1807.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् तरीचरकला, जिला टीकमगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् तरीचरकला, जिला टीकमगढ़.	अध्यक्ष	-	-	मिथलेश हुकुमचन्द्र पटवा	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	कुशवाहा महेन्द्र	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	आर्य कुसुम (दादी पटैल)	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	आदिवासी शीला सौर	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	अहिरवार कालीचरन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	अहिरवार मूलचन्द्र s/o मुनऊ	बहुजन समाज पार्टी
7		पार्षद	6	छः	रेखा साहू पत्नी संतोष कुमार	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	बंदना साहू-पंकज साहू	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	निधी-उमाशंकर देवलिया	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	आर्य संजय s/o ज्ञानसिंह पटेल	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	मायादेवी निरंजन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	आर्य पुष्पा देवी-बब्लू पटैल	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	नगर परिषद् तरीचरकला, जिला टीकमगढ़.	पार्षद	12	बारह	कोरी भगवती w/o स्वामी	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	मुन्नालाल	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	भूती बंशकार	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	पुष्पेन्द्र सिंह	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1808.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़.	अध्यक्ष	-	-	रामगोपाल चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	घनश्यामदास चढार	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	पिंकी राजेश सैनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	कैलाश चौरसिया	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	समीम बानो	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	सबीबा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	ववली रैकवार	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	सुनीता जाटव	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	इदरीश खां	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	उर्मिला देवी	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	देवकीनन्दन गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	नीतू सिंह संदीप पायक	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	राजेंद्र आदिवासी	समाजवादी पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	सुरेश कुमार	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	दशरथ	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	गोरेलाल परशुराम रैकवार	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1809.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् खरगापुर, जिला टीकमगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक (1)	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)		
1	नगर परिषद् खरगापुर, जिला टीकमगढ़.	अध्यक्ष	-	-	लच्छूराम चढार	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	रति देवी चढार	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	मनीषा अमित जैन	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	मुहम्मद सरवर (चेनू) चौधरी	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	अब्दुल हमीद (पप्पू) चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	भजन लाल साहू	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	हरिकिशन कोरी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	किशोरीलाल कोरी	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	दिग्विजय सिंह	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	उषा देवी साहू	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	हीरालाल सेन	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	वीर बृषंग देव	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	अहिरवार रामकुवैर	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	किरन रैकवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	अहीर बैनीबाई	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	गनेशी बाई	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1810.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् जैरोन, जिला टीकमगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक (1)	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)		
1	नगर परिषद् जैरोन, जिला टीकमगढ़.	अध्यक्ष	-	-	मालती वालकिशन	भारतीय जनता पार्टी



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	नगर परिषद् जैरोन, जिला टीकमगढ़.	पार्षद	1	एक	प्रियंका	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	विनय गंगेले	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	जमना डरू कुशवाहा	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	शशि राकेश कुमार शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	बालाराम	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	राजमान	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	प्रभादेवी	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	जानकी मुकेश खंगार	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	भावना अजय साहू	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	क्रष्णा	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	मुन्ना खां	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	रामचरण	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	रचना राममिलन	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	परसराम	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	बालकिशन	इंडियन नेशनल पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1811.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़.	अध्यक्ष	-	-	कोरी लालबहादुर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	निलांशु नायक	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	अरविन्द सिंह s/o कपूरसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	चतुर्वेदी पूजा	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	हेमा कोरी	इंडियन नेशनल पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	बवलेश खटीक	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	सविता देवी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	संध्या-वीरप्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	अतुल	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	दुर्गावाई-लक्ष्मण कुशवाहा	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	नगर परिषद् पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़.	पार्षद	10	दस	रामदास s/o ठाकुरदास कुशवाहा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	पिंकी देवी w/o शिवदयाल रैकवार	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	अहिरवार चन्द्रप्रकाश	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	कुशवाहा भुजल	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	वालकदास तनय कपा कुशवाहा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती पुष्पा देवी w/o सीताराम कुशवाहा	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( गिरीश शर्मा )  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1812.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् जतारा, जिला टीकमगढ़ के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् जतारा, जिला टीकमगढ़.	अध्यक्ष	-	-	कमला नवीन साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	गजेन्द्र रैकवार (रग्घु)	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	राकेश प्रजापति	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	काशीबाई कल्लू प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	अरविन्द शर्मा (डिस्लिवा)	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमती कुसुम कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	अहिरवार रामकिशोर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	भगवती चिन्तामन चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	मनीषा सन्तोष रजक	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	हामित चौधरी	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	अंगूरी देवी	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	पवन जैन	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	आमना आपा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	तवस्सुम फिरोज खॉ रिकू	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	ज्योति ध्यान सिंह	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	बाबूलाल रजनी	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( गिरीश शर्मा )  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1813.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् ब्योहारी, जिला शहडोल के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक (1)	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)		
1	नगर परिषद् ब्योहारी, जिला शहडोल.	अध्यक्ष	-	-	पुष्पा पटेल शत्रुधन पटेल	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	पंचवटी उर्फ ललिता	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	सुनीता खटिक	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	चांद बीबी	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	शिवराम पटेल पिता श्री राजाराम पटेल	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	लवकेश कुमार पटेल	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	रेखा देवी पटेल	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	मुन्ना लाल खटिक	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	रामदीन गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	चिरौंजीलाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	अनीता कोल	बहुजन समाज पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	माधुरी गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	निर्मला दीपनारायण	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	दिवेदी सुलोचना	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	मीना केशरी	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रमेश (चमडिया)	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1814.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् खांड, जिला शहडोल के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक (1)	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)		
1	नगर परिषद् खांड, जिला शहडोल.	अध्यक्ष	-	-	मोतीलाल बैस (मोती)	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	नगर परिषद् खांड, जिला शहडोल.	पार्षद	1	एक	अरूणा संजय केवट	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	सुन्दर लाल साकेत	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	शारदा प्रसाद गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	सरस्वती त्रिपाठी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	रामलाल सिंह गौंड	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	राजकुमारी कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	मिथलेश कोल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	प्रदीप कुमार केवट	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	फूलचन्द्र पिता जगतदेव	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	सुशीला तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	ममता शुक्ला	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	राकेश कुमार ताम्रकार	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	विनोद अवस्थी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	सीता दीपक कोल	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	पूजा त्रिपाठी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.